

# **भारत का राजपत्र** **The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 1967/चैत्र 16, 1889

No. 51]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 1967/CHAITRA 16, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1967

सं यः 1(1)/67-सी० ओ० प्र.२० :—श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) के संकल्प संख्या 5(21)/66 आर० ई० दिनांक 6 जनवरी, 1967 द्वारा पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य के लिये गठित समीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री अतुल्य घोष द्वारा त्याग पत्र देने पर श्री एन० सी० खट्जो, संसद् सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय किया गया है। यह भी निर्णय किया गया है कि श्री ए० सी० गुहा को समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाये तथा श्री एम० सी० मुखर्जी, सचिव, शरणार्थी सहायता तथा पुनर्वास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, श्री एस० एन० बनर्जी के स्थान पर सदस्य होंगे।

2. उपरोक्त संकल्प में आंशिक संशोधन करने हुए समिति का संशोधित गठन निम्न प्रकार होगा :—

अध्यक्ष

1. श्री एन० सी० खट्जो, संसद् सदस्य

## उपाध्यक्ष

2. श्री ए० सी० गृहा

## सदस्य

3. श्री पी० द्वार० चक्रवर्ती

4. श्री एस० डी० शर्मा, उद्योग मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार

5. श्री बालकृष्ण वास्तिनक

6. श्री एम० सी० मुखर्जी सचिव, शरणार्थी सहायता तथा पुनर्वास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार

7. श्री अनिल दे, संयुक्त सचिव, श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) भारत सरकार

8. श्री एम० एल० विश्वास (एक विस्थापित व्यक्ति तथा सामाजिक कार्यकर्ता)

श्री एच० ए० दे, अध्यक्ष-सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सलाहकारी क्षमता में समिति के सहयोगी होंगे।

श्री एम० एन० चन्दा उप-सचिव, श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

3. भारत सरकार के उक्त संकल्प की अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेज दी जाये।

१. समिति के सदस्य।

२. भारत सरकार के मंत्रालय विभाग।

३. योजना आयोग, प्रधान मंत्री का सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय तथा राष्ट्राति के निजी तथा सैनिक सचिव।

४. राज सरकारों। संघ प्रशासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रामाणिकारी के लिये प्रकाशित किया जाये।

बी० नन्जप्पा, सचिव।